



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901

No. 443]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1979

ब्याज कर

का० आ० 614 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्याज कर नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्याज कर (संशोधन) नियम, 1979 है।
- (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. ब्याज कर नियम, 1974 के परिशिष्ट में, (क) प्ररूप 4 में, टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए या, यदि अपील किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष फाइल की जाती है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5 क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो, अपीलार्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखी जानी चाहिए और उसमें, अपील आधाराओं को संक्षेप में तथा सुविन्न शीर्षों के अधीन बिना किसी तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे आधाराओं को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।”

(ख) प्ररूप सं० 5 में, टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा अर्थात् :—

“2. प्रत्याक्षेप का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए या यदि ज्ञापन किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया जाता है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5 क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो प्रत्यक्षेप के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें प्रत्याक्षेपों को संक्षेप में तथा सुविन्न शीर्षों के अधीन, बिना तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे आक्षेपों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।”

[सं० 3053/का० सं०/143/4/78-टीपीएल]

एम० एन० शेट्टे, सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Central Board of Direct Taxes)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1979

INTEREST-TAX

S.O. 614(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Interest-tax Rules, 1974, namely :—

- (1) These rules may be called the Interest-tax (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Appendix to the Interest-tax Rules, 1974,—

(a) in Form No. 4, for Note 3, the following Note shall be substituted, namely :—

“3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.” ;

(b) in Form No. 5, for Note 2, the following Note shall be substituted, namely :—

“2. The memorandum of cross-objections should be written in English or, if the memorandum is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the respondent, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the cross-objections without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively.”.

[No. 3053/F, No. 143 (4)/78-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.